



राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

*Published by Authority*

भाद्र 28, गुरुवार, शाके 1941-सितम्बर 19, 2019  
*Bhadra 28, Thursday, Saka 1941-September 19, 2019*

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER**

**Jaipur, September 04, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/ 8612** .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Rajgarh (Alwar) has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Rajgarh (Alwar). After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

**By Order,**  
Ujjwal Rathore,  
**Joint Secretary to Government.**

कार्यालय नगर पालिका राजगढ, जिला अलवर

प्रवष्टि क

| क्र० सं० | वार्ड सं० | वार्ड का विवरण  |
|----------|-----------|---|
| 1        | 1         | 1. नीलघर की कोठी, खवास जी का बाग- पोलाराम के मकान से कैलाशचंद के मकान तक<br>2. थाना राजाजी के फाटक के पास, खवास जी का बाग- ओम प्रकाश के मकान से कुन्दन लाल के मकान तक<br>3. खवास जी का बाग- राजेन्द्र कुमार सैनी के मकान से तनु कुमारी सैनी के मकान तक<br>4. रेल्वे क्वार्ट से खवास जी का बाग- सुनील कुमार के मकान से बंशीधर के मकान तक |
| 2        | 2         | 1. टहला रोड- किरण प्रकाश के मकान से विनोद के मकान तक<br>2. भौरी का बास/बावडी का बास -गिर्राज प्रसाद के मकान से मंजू के मकान तक<br>3. बावडी का बास व गोला का बास- धर्मपाल के मकान से मोनू के मकान तक   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | <p>4. पाडयान का बास- सचिन के मकान से रामलाल के मकान तक</p> <p>5. थाना राजाजी रोड- मूकेश के मकान से भगवान सहाय के मकान तक</p> <p>6. डास्यान का बास- बनवारी लाल के मकान से जितेन्द्र के मकान तक</p>   |
| 3 | 3 | <p>1. स्टेशन रोड -भगवान सहाय के मकान से ऐशवर्या के मकान तक</p> <p>2. टहला रोड- कोशल कुमार के मकान से सूरज के मकान तक</p> <p>3. नाथ जी का आसन- साजन कुमार के मकान से लक्ष्मा के मकान तक</p> <p>4. माता जी नाला- कुसुम के मकान से उमा बाई के मकान तक</p> <p>5. गंगा बाग- लक्ष्मी देवी के मकान से गायत्री देवी के मकान तक</p>  |
| 4 | 4 | <p>1. रेस्ट हाउस रोड- दिलीप कुमार के मकान से अंकित मामोडिया के मकान तक</p> <p>2. गंगा बाग- अंकित भारतवाज के मकान से मोतीलाल के मकान तक</p> <p>3. बैरवा बस्ती- पूरणमल के मकान से अनिल के मकान तक</p> <p>4. मान्दरीन मौहल्ला - भागन्ती मीना के मकान से घनश्यामदास के मकान तक</p> <p>5. विकास कोलानी- ललिता देवी के मकान से राजेन्द्र गोयल के मकान तक</p> <p>6. सराय मौहल्ला- मनभरी देवी के मकान से महेश के मकान तक</p>  |
| 5 | 5 | <p>1. सराय मौहल्ला- जांहड़ा देवी के मकान से राजेन्द्र के मकान तक</p> <p>2. स्टेशन रोड- पप्पू खान के मकान से जगदीश के मकान तक</p> <p>3. तहसील परिसर के पास- रोशन के मकान से राजेन्द्र के मकान तक</p> <p>4. अस्पताल के सामने- अर्चना के मकान से अनुश्री अग्रवाल के मकान तक</p> <p>5. विकास कोलानी- शिवानी के मकान से रामकिशोर के मकान तक</p> <p>6. गोल सर्किल- जगदीश के मकान से महेश के मकान तक</p>   |
| 6 | 6 | <p>1. कोली बस्ती - किशोर कुमार के मकान से सुनील कुमार के मकान तक</p> <p>2. जागान बस्ती- मनीष कुमार के मकान से जितेन्द्र कुमार के मकान तक</p> <p>3. जागिड मौहल्ला- नीरज के मकान से गोविन्द के मकान तक</p>  |
| 7 | 7 | <p>1. जागिड मौहल्ला- राजेन्द्र कुमार के मकान से पूनम जागा के मकान तक</p> <p>2. दारू कूटा मौहल्ला - नीरज के मकान से यश पाल सिंह के मकान तक</p> <p>3. धोबी मौहल्ला- मनोज कुमार के मकान से जितेन्द्र के मकान तक</p> <p>4. नारायण सिंह की हवेली- छगन सिंह के मकान से दिपाशू के मकान तक</p> <p>5. बैरवा बस्ती- सुभाष चंद के मकान से कुलदीप के मकान तक</p> <p>6. भीम कोलानी बैरवा बस्ती- प्रभूदयाल के मकान से अक्षय प्रेम के मकान तक</p> <p>7. खटीकान मौहल्ला- उतम कुमार के मकान से नरेश कुमार के मकान तक</p> |
| 8 | 8 | <p>1. बसवा दरवाजा- मांगेलाल के मकान से मोहनलाल के मकान तक</p> <p>2. बारलाबास मौहल्ला - मनोज कुमार के मकान से बिरदी चंद के मकान तक</p> <p>3. मन्दिर खटीकान रोड- विजय के मकान से आनन्द के मकान तक</p>   |

|    |    |  |
|----|----|--|
|    |    | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. बिजेन्द्र के मकान से डूगाराम के मकान तक</li> <li>5. कुम्हार बाड़ी - योगेश चंद के मकान से नरेश कुमार के मकान तक</li> <li>6. भीम कोलानी बैरवा बस्ती- मनोज के मकान से प्रभूदयाल के मकान तक</li> </ol>   |
| 9  | 9  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. हरिजन बस्ती- फूलचंद के मकान से भवानी सहाय के मकान तक</li> </ol>  |
| 10 | 10 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. हरिजन बस्ती- गणेश लाल निदानिया के मकान से कल्याण सहाय के मकान तक</li> </ol>  |
| 11 | 11 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. खादी आश्रम के पास- उदयभान के मकान से उम्मेद सिंह के मकान तक</li> <li>2. खादी आश्रम के सामने- सुरेन्द्र कुमार शर्मा के मकान से नरेन्द्र प्रसाद मिश्रा मकान तक</li> </ol>  |
| 12 | 12 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. तमोली की गली- महेश चंद से लक्ष्मण प्रसाद तक</li> <li>2. आर्य समाज की गली- ताराचंद से गुलाब के मकान तक</li> <li>3. आर्य समाज की गली- रमेश चंद से राधेश्याम के मकान तक</li> <li>4. कुण्ड मौहल्ला की गली- रमन कुमार से श्री गोविन्द्र मकान तक</li> <li>5. कुण्ड मौहल्ला- कैलाश चंद से दीपाकर श्रीवास्तव मकान तक</li> <li>6. कुण्ड मौहल्ला- चन्द्रदेव से रत्नम के मकान तक</li> <li>7. कुण्ड मौहल्ला- सूरज पाल सिंह से अशोक कुमार मकान तक</li> <li>8. गोविन्द देवजी बाजार- महादेव प्रसाद से महेन्द्र कुमार मकान तक</li> </ol>   |
| 13 | 13 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. चैपड बाजार - कृष्ण अवतार के मकान से विकास के मकान तक</li> <li>2. कुण्ड मौ०- जितेन्द्र गुप्ता से शुशान्त के मकान तक</li> <li>3. बटवाडा की गली- गिरार्ज बटवाडा से कैलाश चन्द के मकान तक</li> <li>4. झालानी की गली- राजेन्द्र के मकान से मोतीलाल के मकान तक</li> <li>5. तंबोली की गली- रमेश तंबोली से रूप किशोर तंबोली के मकान तक</li> <li>6. कुण्ड मौ० की गली:- महेश कुमार से श्याम सुन्दर सैन के मकान तक</li> <li>7. आर्य समाज की गली- मदन मोहन से नितिन के मकान तक</li> <li>8. कुण्ड मौ० - प्रेमनारायण से मुकेश चन्द के मकान तक, राधेश्याम से राकेश गुप्ता के मकान तक</li> <li>9. कुण्ड मौ०- नीरज से सुनील कुमार के मकान तक</li> <li>10. गोविन्द देवजी बाजार- कोशल कुमार से सतीश कुमार तक</li> </ol> |
| 14 | 14 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. पुलिस स्टेशन के पास धाबाई मौहल्ला- जगदीश प्रसाद के मकान से कमला देवी के मकान तक</li> <li>2. जलदाय विभाग के पास- राधेश्याम के मकान से सुनील के मकान तक</li> <li>3. मोचियान वाली गली- दीनदयाल के मकान से भगवान सहाय के मकान तक</li> <li>4. गोविन्द देवीजी मन्दिर के पीछे - दीपक के मकान से महर सिंह के मकान तक</li> <li>5. जागान मौहल्ला- नन्दकिशोर के मकान से तरुण सिंह के मकान तक</li> </ol>   |

|    |    |  |
|----|----|--|
|    |    | मोहन लाल मकान से नरेश मोहन के मकान तक  |
| 15 | 15 | 1. जगदीश जी के मन्दिर के पास:- मंहत पूर्णदास के मकान से टीकम सिंह के मकान तक   |
| 16 | 16 | 1. माचाडी दरवाजा- जोगेन्द्र कंवर के मकान से किरण देवी के मकान तक<br>2. माली मोहल्ला:- कैलाष चन्द सैनी, मनोज के मकान से ताराचन्द सैनी के मकान तक, कृष्ण मोहन के मकान तक सिमरन के मकान तक  |
| 17 | 17 | 1. मालाखेडा मौ० माली मौ०:- शान्ति देवी के मकान से अभिषेक गुप्ता के मकान तक, अन्नत राम से देवेन्द्र/दिनेश के मकान तक  |
| 18 | 18 | 1. गोठवाल की गली-पुरुषोत्तम के मकान से मोहन बाबू के मकान तक, अनील के मकान से लोकेश के मकान तक<br>2. सत्यनारायण मन्दिर कि गली - कृष्ण मोहन के मकान से धर्मन्द्र के मकान तक<br>3. कांकवाडी बाजार- मुकेश के मकान से कैलाश के मकान तक  |
| 19 | 19 | 1. कांकवाडी बाजार- कपूर चन्द के मकान से सुधा गोयल के मकान तक<br>2. जैन मन्दिर - रमेश चन्द के मकान से ओम प्रकाश के मकान तक<br>3. ठठेरा मौ० - विजय के मकान से नवल के मकान तक, ताराचंद के मकान से सुरेश जांगिड मकान तक<br>4. टोगडा मौ० - जगदीश के मकान से महेश चन्द के मकान तक  |
| 20 | 20 | 1. मालाखेडा दरवाजा:- बृजमोहन के मकान से शेरसिंह के मकान तक एवं आरती देवी के मकान से मीनाक्षी के मकान तक,<br>ओमप्रकाश, राजदुलारी, कैलाश चन्द, सुरेश चन्द के मकान तक,<br>2. माचाडी दरवाजा:-<br>3. माली मौहल्ला:- महेश चन्द के मकान से पुजा देवी के मकान तक, नेमीचन्द के मकान से रामा देवी के मकान तक, राजेन्द्र के मकान से गौरी शंकर के मकान तक<br>4. मालाखेडा दरवाजा बाहर:- नानक राम के मकान से रघुविर के मकान तक, मूल चन्द के मकान से भगवान सहाय के मकान तक<br>5. माली मौहल्ला:- विवके/दिनेश के मकान से कृष्ण गोपाल के मकान तक |
| 21 | 21 | 1. बंकट की कोठी- ओमप्रकाश के मकान से भरतलाल के मकान तक<br>2. देवीजी रोड- रामकिशोर के मकान से सीताराम के मकान तक  |
| 22 | 22 | 1. रामाला कुआँ<br>2. देवीजी के मन्दिर के पास:- भागवान के मकान से लल्लू राम के मकान तक<br>3. देवीजी के पास- रामकिषोर के मकान से जयप्रकाश के मकान तक<br>4. कोटवाल - शोभाराम के मकान से बनवारी लाल के मकान तक   |
| 23 | 23 | 1. गोला का कुआ- हरिशकर के मकान से रामस्वरूप के मकान तक   |

|    |    |  |
|----|----|--|
|    |    | <p>2. माचाडी चैक दक्षिण भाग- लाल चन्द से योगेश के मकान तक</p> <p>3. नवीन बस स्टैण्ड कारोठ रोड:- दीप चन्द के मकान से बिरदी चन्द के मकान तक</p> <p>रामनगर बस स्टैण्ड - प्रेमलता के मकान से योगेश के मकान तक, सुरेश के मकान से बाल किषन के मकान तक, सुनिल कुमार के मकान से कैलाष के मकान तक</p>   |
| 24 | 24 | <p>1. रैबारपुरा- महावीर के मकान से दीपक के मकान तक</p> <p>2. दौला खोजा की कोठी - मूरली के मकान से कजोड के मकान तक</p>  |
| 25 | 25 | <p>1. फतेहबुर्ज - गुल्याराम के मकान से प्रमोद के मकान तक</p> <p>2. माचाडी रोड दक्षिण भाग- सुनिल के मकान से पूर्ण चन्द के मकान तक</p> <p>3. रामअवतार के मकान से बसन्त कुमार के मकान तक</p> <p>4. रामनगर नवीन बस स्टैण्ड कारोठ रोड</p>   |
| 26 | 26 | <p>1. भगत का बास, पटायरी की डूंगरी- राकेश के मकान से सुमन देवी के मकान तक,</p> <p>2. जिन्द कोलानी- 1 मुकेश के मकान से मनोहरी देवी के मकान तक, 2 तेजपाल से चन्दो देवी 3 बाबूलाल से छोटे लाल 4 कमला देवी से साक्षी सैनी 5 ताराचंद से अन्शो देवी</p> <p>3. पटायरी की डूंगरी - 1 प्रसादी लाल से गोपाल प्रसाद, 2 आकाश से सुमन 3 महेश चंद से उमराव सिंह 4 टिना बाई से अमन दीप भारती 5 राजो से विन्धाय कंवर 6 मुकेश कुमार से आषा बाई</p>  |
| 27 | 27 | <p>1. चाणक्यपुरी , बस स्टैण्ड- 1 मीरादेवी से गायत्री देवी, 2 पुष्पा देवी से कैलाश चंद 3 शिवचरण से मथन 4 चन्द्रा से दीपक तक 5 कमलेश से संतोष कुमार 6 देवेन्द्र से सीताराम 7 राधेश्याम से लक्ष्मी देवी 8 गंगा देवी से रामचरण</p> <p>2. सराय मौहल्ला- 1 हंसा देवी से मीना देवी , 2 सुशीला देवी से शकुन्तला देवी 3 रामजी लाल से गोरधनी देवी 4 गोदावरी देवी से रजन्नी देवी</p> <p>3. सराय मौहल्ला, मित्रविहार, चाणक्यपुरी, अस्पताल के पीछे- 1 संजय कुमार से अशोक कुमार , 2 अल्का देवी से दिनेश तक 3 गायत्री देवी से रजन्नी देवी 4 रमेश चंद से लखनो देवी तक 5 अमित कुमार से वन्दना देवी 6 बाबूलाल से रमेश चंद तक 7 वामाक्षी देवी से वैशाली देवी 8 विजय साहू से हिमान्शु गुप्ता तक 9 ओमप्रकाश मीना से दिपक शर्मा तक</p> |
| 28 | 28 | <p>1. चाणक्यपुरी - गोपिका के मकान से सुशील के मकान तक</p>  |
| 29 | 29 | <p>1. बस स्टैण्ड के पीछे - नीलम के मकान से रीना साहू के मकान तक</p>  |
| 30 | 30 | <p>1. रामबक्श की चक्की , बैडा का बास- अंगुरी देवी के मकान से मोनू के मकान तक</p> <p>2. लल्लूराम के मकान से ममता के मकान तक</p>   |

|    |    |  |
|----|----|--|
|    |    | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. रामपाल के मकान से गौरव के मकान तक</li> <li>4. जगदीश के मकान से गुडडी देवी के मकान तक</li> <li>5. भोज्या का बास- लीलाराम के मकान से ओमप्रकाश के मकान तक</li> </ol>  |
| 31 | 31 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. पटायरी की डूंगरी - बाबूलाल के मकान से रूकमणी देवी के मकान तक</li> <li>2. नथथूराम के मकान से विककी के मकान तक</li> <li>3. छुट्टन लाल के मकान से अमर चंद, तमन्ना के मकान तक</li> </ol>   |
| 32 | 32 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. तेल मील के पास- रामचन्द्र के मकान से रामजीलाल सैनी के मकान तक</li> <li>2. चुन्नी लाल की कोठी- छगन लाल सैनी के मकान से लल्लूराम के मकान तक</li> <li>3. पटायरी की डूंगरी, जगदम्बा कोलानी- मोनू कुमार के मकान से गणेश के मकान तक</li> <li>4. पाटीन मौहल्ला , दीवान का बाग- चिरंजी लाल सैनी के मकान से राजेन्द्र कुमार के मकान तक</li> <li>5. खडोल्या मौहल्ला , मेला का चैराया-हरीराम सैनी के मकान से राधेश्याम सैनी के मकान तक</li> </ol> |
| 33 | 33 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. तेल मील के पास-</li> <li>2. तेल मील , खेलकोठान , कोली बस्ती- मुरारी लाल के मकान से मूलचंद के मकान तक</li> <li>3. दिवान जी का बाग, सैनी बस्ती- भरत लाल सैनी के मकान से छोटेलाल कोली के मकान तक</li> <li>4. दिवान जी, खवास जी, खडोल्या का बास- घासीराम सैनी के मकान से सुरेश प्रजापत के मकान तक</li> </ol>   |
| 34 | 34 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. चोरवाडया, बडी गुवाडी- गोकुल चन्द के मकान से लोकेष के मकान तक</li> <li>2. भोली का बास- राजेन्द्र के मकान से मोनीका/रोषन के मकान तक</li> </ol>   |
| 35 | 35 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भोली का बास- आन्नदी लाल के मकान से ललता देवी के मकान तक</li> <li>2. भोली का बास, जैन पट्टोल पंप के पास, खवास का बाग- गंगाराम के मकान से सुमन के मकान तक</li> </ol>   |

अधिशायी अधिकारी  
नगर पालिका राजगढ

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।